



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 7, 2011/माघ 18, 1932

No. 224]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 7, 2011/MAGHA 18, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2011

का.आ. 264(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 399(अ), तारीख 17 फरवरी, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के 43/000 कि.मी. से 96/714 कि.मी. तक के भूखण्ड (परियोजना चैनेज) (केरल-तमिलनाडु सीमा-कन्याकुमारी सेक्शन) और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47बी के 0/000 कि.मी. से 16/376 कि.मी. तक के भूखण्ड (परियोजना चैनेज) (नगरकोइल-कवलकिनारू सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 20 मार्च, 2010 को “दिना थांथी” और “दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस”, दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के 43/000 कि.मी. से 96/714 कि.मी. (परियोजना चैनेज) (केरल/ तमिलनाडु सीमा - कन्याकुमारी सेक्शन) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47बी के 0/000 कि.मी. से 16/376 कि.मी. (परियोजना चैनेज) (नगरकोइल से कवलकिनारु सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कन्याकुमारी	1.थोवालई	तिरुपतिसरम	81/1	सरकारी	पोरमबोक	150	तमिलनाडु सरकार
				84	सरकारी	पोरमबोक	1850	तमिलनाडु सरकार
				86/8	सरकारी	पोरमबोक	150	तमिलनाडु सरकार
				92/5	सरकारी	पोरमबोक	300	तमिलनाडु सरकार
				92/7	सरकारी	पोरमबोक	500	तमिलनाडु सरकार
				181/8	सरकारी	पोरमबोक	16500	तमिलनाडु सरकार
				360/4	सरकारी	पोरमबोक	100	तमिलनाडु सरकार
				361/6	सरकारी	पोरमबोक	400	तमिलनाडु सरकार
				363/1	सरकारी	पोरमबोक	150	तमिलनाडु सरकार
				363/7	सरकारी	पोरमबोक	50	तमिलनाडु सरकार
				364/3	सरकारी	पोरमबोक	300	तमिलनाडु सरकार
				365/2	सरकारी	पोरमबोक	100	तमिलनाडु सरकार
				365/3	सरकारी	पोरमबोक	50	तमिलनाडु सरकार
				373	सरकारी	पोरमबोक	850	तमिलनाडु सरकार
				375/7	सरकारी	पोरमबोक	700	तमिलनाडु सरकार
				376/6	सरकारी	पोरमबोक	50	तमिलनाडु सरकार
				384/3	सरकारी	पोरमबोक	450	तमिलनाडु सरकार
				389/1	सरकारी	पोरमबोक	250	तमिलनाडु सरकार
				390/6	सरकारी	पोरमबोक	50	तमिलनाडु सरकार
				392/29	सरकारी	पोरमबोक	100	तमिलनाडु सरकार
				393/2	सरकारी	पोरमबोक	200	तमिलनाडु सरकार
				394/1	सरकारी	पोरमबोक	200	तमिलनाडु सरकार
				394/3	सरकारी	पोरमबोक	100	तमिलनाडु सरकार
				79/7	निजी	नम	4500	1.चिदम्बरमपिल्लै पुत्र नाल्लाशिवान पिल्लै 2. गोपालन चेट्टीयार पुत्र शिवाथानु चेट्टीयार 3.वाल्लीयाम्माल पत्नी गोपालन चेट्टीयार 4.रामाईया नादर पुत्र कोवाप्पान 5.रोसाम्माल पत्नी रामाईया नादर 6.सेलवी पुत्री गोपालन चेट्टीयार 7. पलानियाप्पान पुत्र शुनमुगाम 8. पाकथावाटचालम पुत्र बालाकृष्णन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								9. गोविन्दन नामबोथीरी पुत्र नारायणन नामबोथीरी 10. शक्तिकुमारी पत्नी गोविन्दन नामबोथीरी 11. शेखर पुत्र वेलायुधाम असारी 12. नारायणन नामबोथीरी पुत्र कृष्णन नामबोथीरी 13. अशोककुमार पुत्र रामाईयन 14. काला पत्नी प्रेमकुमार 15. मनीकान्दान पुत्र जगदीसन 16. अलफरेद पुत्र वरगीस 17. दोमीनिक बाबु पुत्र गनानाप्रकाशम
				79/8	निजी	नम	3300	1. नारायण ईयर पुत्र सुब्बाईया 2. स्वामीनाथन पुत्र नारायण ईयर
				79/9ए	निजी	नम	1050	1. नारायण ईयर पुत्र सुब्बाईया 2. स्वामीनाथन पुत्र नारायण ईयर
				79/9बी	निजी	नम	250	अनान्ता सुब्रामणिय ईयर @ एस ए एस मनी पुत्र सुब्बाईयर
				80/2	निजी	नम	350	1. अरुणाचलम पुत्र पत्तानियन्दी वेलार 2. कोलाप्पन पुत्र पत्तानियन्दी वेलार 3. कासांगान पुत्र कोलाप्पा वेलार 4. शेनबागादेवी पत्नी शिवकुमार
				81/3	निजी	नम	1900	अनान्ता सुब्रामणिय ईयर पुत्र सुब्बाईयर
				81/4	निजी	नम	650	एस थानु सुब्रामणिय ईयर, थिरुचेनदुर सुब्रामणिय स्वामी वदीविस्वाराम वेल
				85/1	निजी	नम	2050	गनानावादीवु अम्माल पुत्री मालाईयम्माई
				85/2	निजी	नम	300	कृष्णा ईयर पुत्र सुन्दा ईयर
				85/3	निजी	नम	250	अनान्ता सुब्रामणिय ईयर पुत्र सुब्बाईयर
				86/3बी	निजी	नम	2100	1. रंगासामी पुत्र रामासामी 2. एन्थोनी पुत्र पोन्नाईया 3. कृष्णन पुत्र पावेल
				86/4	निजी	नम	100	1. सुबारिष पुत्र भाजराजन 2. हरीकेशवन पुत्र भोजराजन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				86/5	निजी	नम	100	मेरसी अमालीन सुधा पत्नी मार्टिन बरीटोसिह
				86/6	निजी	शुष्क	100	1. हरीहरपोथी पुत्र संसागीरपोथी 2. रामासामी पुत्र थिरुवाजीमारदान
				86/7	निजी	नम	1250	मुंकालापेरुमल पित्तल ट्रस्टी थिरेकालपुथुर मुथयम्मन
				92/2	निजी	नम	1400	राजेन्द्रन पुत्र ऐन्थोनीप्पान
				92/3	निजी	नम	1400	अंदी चेट्टीयार ट्रस्टी कोटटार नाईनार देसिंगा विनायगार
				92/4	निजी	नम	2400	चित्रा पुत्री जानवी
				92/6	निजी	नम	1900	1. अयापिल्लै पुत्र मन्नेल 2. महीबानस जेरुलिन देवी पत्नी मासी नवारोज 3. राजेन्द्रन पुत्र ऐन्थोनीप्पान
				92/8	निजी	नम	950	चिन्नाथामबी कोनार पुत्र अरुमुगा कोनार
				92/9	निजी	नम	50	1. सेलवारज पुत्र मदस्वामी असारी 2. कोकीला पुत्री मदस्वामी असारी 3. सतीष पुत्र मदस्वामी असारी
				92/10	निजी	शुष्क	50	अंदी चेट्टीयार ट्रस्टी कोटटार नाईनार देसिंगा विनायगार
				93/8बी	निजी	नम	1800	राजेन्द्रन पुत्र ऐन्थोनीप्पान
				166/1	निजी	नम	210	मोहम्मद अकबर पुत्र मोहीदीन पित्तचाइ रावथार
				166/2	निजी	नम	320	तिरुपपति नानगाईयम्मल
				166/3	निजी	नम	1800	मल्लिका पत्नी मुरुगेशन
				166/4	निजी	नम	100	अथीवारगावा ईयर पुत्र नामबागार कृष्णन
				360/2	निजी	नम	200	1. ई वी एन सुदारकोडी रवि पत्नी एस रवि 2. जोसपु ईडविन पुत्र नायागाम
				360/3	निजी	नम	2650	ई वी एन सुदारकोडी रवि पत्नी एस रवि
				360/6	निजी	नम	3950	1. ई वी एन सुदारकोडी रवि पत्नी एस रवि 2. प्रिन्स पुत्री लाजर 3. लेओन क्रास लाजर राईन पुत्र लाजर 4. रविमनियण पुत्र स्वामीकान्न
				360/7	निजी	शुष्क	100	सोरीयाकान्ती पुत्री लक्ष्मी नादाची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				360/8	निजी	नम	400	सोरीयाकान्ती पुत्री लक्ष्मी नादाची
				360/9	निजी	नम	320	एस रवि @ रविमानीयन पुत्र स्वामीकान्न
				361/5	निजी	नम	2500	1. ईलावर पेतसी पेरश 2. नलिनी पतनी रविनथिरानाथ चन्द्रन
				361/7	निजी	नम	1100	1. सरोजीनिबाई पत्नी बासकरदास 2. रविमणियन पुत्र स्वामीकान्न
				361/8	निजी	नम	1400	रविमणियन पुत्र स्वामीकान्न
				361/9	निजी	नम	2050	एस रवि @ रविमणियन पुत्र स्वामीकान्न
				362/5	निजी	नम	450	1. परीन्सा पुत्र लाजर 2. रेधु पुत्र स्वामीकान्न
				363/3	निजी	नम	1350	डेविड पुत्र मनीकम
				363/6	निजी	नम	1300	दक्षिण भारत थिरुसाबाई कन्याकुमारी अथीयाचाथीनाम नागरकोईल
				363/9	निजी	नम	1050	1. डेविडसन पुत्र मनीकम 2. फतिमालिन सेलवाकुमारी पुत्री डेविडसन
				364/1	निजी	नम	6750	1. गनानादास पुत्र मनीकम 2. डेविडसन पुत्र मनीकम
				364/2	निजी	नम	2400	रेधु पुत्र स्वामीकान्न
				364/4	निजी	नम	7950	दक्षिण भारत थिरुसाबाई कन्याकुमारी अथीयाचाथीनाम नागरकोईल
				364/5	निजी	नम	6900	एस रवि @ रविमणियन पुत्र स्वामीकान्न
				365/1ए	निजी	नम	4600	सुन्द्राम पिल्ले पुत्र रामासामी पिल्ले
				365/1बी	निजी	नम	2100	नलयिणी @ सुजा पुत्री कुमार पिल्ले
				365/4	निजी	नम	6300	ई वी एन सुदारकोडी रवि पत्नी एस रवि
				365/5	निजी	नम	150	ई वी एन सुदारकोडी रवि पत्नी एस रवि
				365/6	निजी	नम	2850	पारीमाजाम पुत्री गुरुसु माईकल, रेजीनाम्माल
				365/7	निजी	नम	3000	कृष्णा प्रसाद पुत्र मुदिसोदुम पेरुमल
				374/1ए	निजी	नम	1600	1. विजयकुमारी पत्नी परमेशवरन पिल्ले 2. अरुणाचलवदीपु अम्माल पत्नी राजाय्यान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3.पेरुमल पिल्लै पत्नी सुब्रामणियन नादर 4.सरोजीनि पुत्री पोन्नाममाल 5.गणपति पुत्री चिन्नाईयन 6.नारायण पेरुमल पुत्र रामाईया नादर 7.जेयकुमारी पुत्री जेसुराजईया 8.मेरी जस्फिन ईसासे पत्नी विजय 9.समबाथ पुत्र गनापति 10. शंकर पुत्र गणपति 11.सोमु पुत्र गणपति 12.पांडीमादेवी पुत्री राजाप्पा पिल्लै
				375/1	निजी	नम	200	जेसुदोस पुत्र थोमसन
				375/2	निजी	नम	4400	1.परीन्सा पुत्र लाजर 2. रेधु पुत्र स्वामीकान्न
				375/3ए	निजी	नम	300	मेरी जास्फिन ईसासे पत्नी विजय
				375/3बी	निजी	नम	450	1.कोलाप्पा पिल्लै पुत्र वीराबागहु पिल्लै 2. लक्ष्मणन पिल्ल पुत्र शिवगुरुपांडारा नादर 3. अथीनारायणन पुत्र थानगाईया नादर
				375/4	निजी	नम	1500	गनानादास पुत्र मनीकम
				375/5	निजी	नम	1750	वेदावरि अबहरानाम पुत्र अन्नामुथु
				375/6	निजी	नम	1750	थंगावेल पुत्र पेरुमल नादर
				376/4सी	निजी	नम	650	1.परमेश्वरीयम्माल पुत्री सुब्रामणिय पिल्लै 2.सवरणम पत्नी नटराजन पिल्लै 3. परमेश्वरन पिल्लै पुत्र सुब्रामणिय पिल्लै
				384/1	निजी	नम	500	ई वी एन सुदारकोडी रवि पत्नी एस रवि
				384/2	निजी	नम	700	शेख मोहम्मद पुत्र शामसुदीन
				384/4	निजी	शुष्क	100	अन्नामुथु पुत्री पाक्कीयम
				384/5	निजी	नम	3050	गनानादास पुत्र मनीकम
				384/6	निजी	नम	3500	1. नादर पुत्र अलवर नादर 2. राजोइया नादर पुत्र अप्पावु नादर 3. अहमद मीरान पुत्र समसुदीन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								4. सुदारकोडी रवि पत्नी रवि @ रविमाणियन
				384/7	निजी	नम	2100	जेबाम पुत्री अरुमुगम पिल्लै
				385/1	निजी	नम	650	1. नलिनी पतनी रविन्द्रनाथ चन्द्रा 2. पेतची पेंथाल माईनर गर्डियन नलिनी माता
				385/2	निजी	नम	300	टी दुराईसामी
				385/3	निजी	नम	100	पंचाली @ नाल्लु पिल्लै पुत्री रामालक्ष्मी
				389/2ए	निजी	नम	4400	1. राजदुराई पुत्र पेरुमल नादर 2. सरस्वती पुत्री पोन्नाम्माल 3. कृष्णकुमारी पत्नी सुकुमारन 4. थंगास्वामी पुत्र ईस्साक्कीमुथु नादर 5. पाउल थंगाम पत्नी थंगास्वामी
				389/2बी	निजी	नम	700	1. ब्रह्मानायागम पुत्र विश्वनाथ पिल्लै 2. सेलवाकुमार पुत्र विश्वनाथ पिल्लै 3. मुथुलक्ष्मी पत्नी शुनमुगानाथन
				390/7	निजी	नम	150	1. मोनोहरदास पुत्र मनुवेल 2. भागवतीयम्माल पत्नी प्रमारथलिगम 3. माईनर कृष्णम्माल पुत्री जर्नाधनाम अम्माल 4. अनानजा पेरुमल पिल्लै पुत्र पराथिसीया पिल्लै
				392/16	निजी	शुष्क	80	सोउन्द्रा बाई पत्नी मोसेस जेयपाल
				392/17	निजी	शुष्क	50	चिदमबरथानु पुत्र मनीकावासगम कन्याकुमारी मादाम वागीई
				392/21	निजी	शुष्क	50	मेन्नातची सुन्दार पुत्र मुथु ट्रस्टी, मारुथानकुलाम चेरई वागीई
				392/25	निजी	शुष्क	50	चिदमबरथानु पुत्र मनीकावासगम कन्याकुमारी मादाम वागीई
				392/26	निजी	शुष्क	100	सामीदीयाल पुत्री माराथी
				392/27	निजी	शुष्क	150	सोउन्द्रा बाई पत्नी मोसेस जेयपाल
				392/28	निजी	शुष्क	200	1. मेन्नातची सुन्दार पुत्र मुथु 2. सोउन्द्रा बाई पत्नी जेयपाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				393/1	निजी	नम	5700	1. नटराजन पुत्र अरुमुगा पेरुमल मोपानार 2. जयलक्ष्मी पुत्र अरुमुगा पेरुमल मोपानार 3. प्रेमा @ सुनमुगाम पुत्र अरुमुगा पेरुमल मोपानार 4. इन्दुमती पुत्र अरुमुगा पेरुमल मोपानार 5. मोहनन पुत्र अरुमुगाम पिल्लै
				393/3	निजी	नम	1000	1. मलिक अहमद पुत्र अथामबावा 2. मोहनन पुत्र अरुमुगाम पिल्लै
				394/2	निजी	नम	1600	1. सेलवाकुमारी पुत्री शांकाप्पन 2. थानुकृष्णन पुत्र विद्यम्बानु मोपानार 3. उलागाम्माल पुत्री पार्वती
				395/2	निजी	शुष्क	150	नलिनी पत्नी रविन्द्रनाथ चन्द्रा
				395/3	निजी	शुष्क	1350	1. प्रेमा @ वाल्मीयम्माल पत्नी शान्तानाकृष्णन 2. सरवणन पुत्र शान्तानाकृष्णन 3. राधाकृष्णन पुत्र शान्तानाकृष्णन
				395/4	निजी	शुष्क	350	1. अन्नामुथु पुत्र पाकीयम 2. अबारनाम पुत्र पोन्नुमुथु 3. मनीकम पुत्र पोन्नुमुथु 4. सटेल्लाल पुत्र पोन्नुमुथु 5. चेल्लाम पुत्र पोन्नुमुथु 6. रविन्धारनाथ पुत्र अरुमाईनायागम 7. साथाशिवम पुत्र कुमारवल पनीकार 8. रामाचन्द्रन पुत्र कुमारवल पनीकार
				395/7	निजी	शुष्क	400	क्रिस्तुदास पुत्र दुराईरागो
				395/8	निजी	शुष्क	200	1. ए एस अनतीयन 2. प्पेतसीपाउल 3. नलिनी पत्नी रविन्द्रनाथ चन्द्रा 4. वेदावती अब्राहम पुत्र अन्नामुथु 5. गनानासोउन्द्रम दुराईरागो पुत्र अन्नामुथु 6. क्रिस्तुदोस पुत्र अन्नामुथु 7. रसेलवम पुत्र पाकीयम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								8. वरथाराजन पुत्र सोउदारमाडियन
				395/9	निजी	शुष्क	6800	1. प्रेमा @ वाल्मीयम्माल पत्नी शान्तानाकृष्णन 2. सरवणन पुत्र शान्तानाकृष्णन 3. राधाकृष्णन पुत्र शान्तानाकृष्णन
		2. अगस्थीस्वरम	ईरावीपुथूर	15/7	सरकारी	पोरमबोक	100	तमिलनाडु सरकार
				16/1	सरकारी	पोरमबोक	40	तमिलनाडु सरकार
				18/7	सरकारी	पोरमबोक	500	तमिलनाडु सरकार
				20	सरकारी	पोरमबोक	1100	तमिलनाडु सरकार
				21/1	सरकारी	पोरमबोक	5	तमिलनाडु सरकार
				24/7	सरकारी	पोरमबोक	400	तमिलनाडु सरकार
				24/10	सरकारी	पोरमबोक	150	तमिलनाडु सरकार
				60/5	सरकारी	पोरमबोक	150	तमिलनाडु सरकार
				61/3	सरकारी	पोरमबोक	100	तमिलनाडु सरकार
				74/3	सरकारी	अमुल्याकित भूमि	650	तमिलनाडु सरकार
				78/7	सरकारी	पोरमबोक	300	तमिलनाडु सरकार
				79/2	सरकारी	पोरमबोक	100	तमिलनाडु सरकार
				80	सरकारी	अमुल्याकित भूमि	8800	तमिलनाडु सरकार
				83/1	सरकारी	पोरमबोक	400	तमिलनाडु सरकार
				84	सरकारी	पोरमबोक	400	तमिलनाडु सरकार
				85/1	सरकारी	पोरमबोक	1100	तमिलनाडु सरकार
				86/6	सरकारी	पोरमबोक	20	तमिलनाडु सरकार
				92/9	सरकारी	पोरमबोक	100	तमिलनाडु सरकार
				92/10	सरकारी	पोरमबोक	100	तमिलनाडु सरकार
				92/11	सरकारी	पोरमबोक	50	तमिलनाडु सरकार
				93/2	सरकारी	पोरमबोक	100	तमिलनाडु सरकार
				185/1	सरकारी	पोरमबोक	60	तमिलनाडु सरकार
				186/4	सरकारी	पोरमबोक	20	तमिलनाडु सरकार
				187/1	सरकारी	पोरमबोक	50	तमिलनाडु सरकार
				190	सरकारी	पोरमबोक	600	तमिलनाडु सरकार
				15/1	निजी	शुष्क	400	1. अजागाप्पान पुत्र रामालिगम 2. वीराप्पान पुत्र सुदालाईयान्दी वैथीयार
				15/2	निजी	नम	990	1. अजागाप्पान पुत्र रामालिगम 2. वीराप्पान पुत्र सुदालाईयान्दी वैथीयार
				15/3	निजी	नम	460	1. शिवथानु पुत्र कुट्टरालिगम पिल्लै 2. वसन्ती थानगाची पुत्री पोन्नाम्मा थानगाची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3. सोरेस पुत्री सेसुवाडीयन 4. थानुमालाया पेरुमल पुत्र मादेवन पिल्लै 5. वाल्लीवेल चेट्टीयार पुत्र ईश्वरामुर्थि चेट्टीयार 6. मुथुकृष्णन पुत्र वेलायुथाम चेट्टीयार 7. पदमावती पत्नी मुथुकृष्णन 8. सुन्द्रा पुत्र भागवतीयप्पान
				15/4	निजी	नम	105	1. कांगासाबाबाथी पिल्लै पुत्र भागवतीपेरुमल पिल्लै 2. पोन्नम्माम्मा पुत्री भागवतीपेरुमल पिल्लै
				16/2	निजी	नम	4260	नागरु पिल्ल पुत्र मुथु कृष्णन पिल्लै
				16/3	निजी	नम	1455	नीलागापिल्लै पुत्र मुन्नोटटरु नानगाई
				16/4	निजी	नम	40	1. चिदम्बमपिल्लै पुत्र माथु पिल्लै 2. भगवती पेरुमल पिल्लै पुत्र अनानजी पेरुमल पिल्लै 3. मुन्नाप्पा पिल्लै पुत्र भागवतीपेरुमल पिल्लै
				17/1	निजी	नम	1050	1. जयबालन पुत्र सुब्बाईया मादाथी 2. उषा पुत्री सुब्बाईया मादाथी
				18/1	निजी	नम	1100	विसलातची पुत्री रामालक्ष्मी अम्माल
				18/2	निजी	नम	740	कोलाम्माल पुत्री राजाम्माल
				18/3	निजी	नम	300	1. शिवथानु पुत्र कुटटरालिगम पिल्लै 2. वसन्ती थानगाची पुत्री पोन्नाम्मा थानगाची 3. सोरेस पुत्री सेसुवाडीयन 4. थानुमालाया पेरुमल पुत्र मादेवन पिल्लै 5. वाल्लीवेल चेट्टीयार पुत्र ईश्वरामुर्थि चेट्टीयार 6. मुथुकृष्णन पुत्र वेलायुथाम चेट्टीयार 7. पदमावती पत्नी मुथुकृष्णन 8. सुन्द्रा पुत्र भागवतीयप्पान 9. अरुलबाई पत्नी सेलवाराज
				18/4ए	निजी	नम	1200	1. वसन्ती थानगाची पुत्री पोन्नाम्माई थानगाची 2. प्रभाकर पुत्र भागवती

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3. नागराजन पुत्र जेगनथान 4. जानकीराम पुत्र मुनीयान्दी 5. महाराजन पुत्र ईसाक्कीमुथु कोनार 6. देवीका पत्नी सुब्रामणिय गुरुक्काल 7. नन्दहीनी पुत्री दामोदरन 8. नामेश पुत्र चिदमब्रम पिल्लै 9. नलीनि पत्नी दामोदरन 10. कोलाप्पा पिल्लै पुत्र अरुमुगम पिल्लै 11. रेंगम्माल पत्नी जोसी 12. मुरुगन पुत्र रेंगानाथ पिल्लै 13. बाला पत्नी सतीष कुमार 14. अजहगाप्पान पुत्र किटटाप्पान 15. मनीयम्मर पत्नी अजागाप्पान 16. ईसाक्कीम्माल पत्नी मुरुगेशन 17. देवा अरुलबाई पत्नी सेलवाराज
				18/4बी	निजी	नम	100	नामेश पुत्र चिदमब्रम पिल्लै
				18/5	निजी	नम	270	1. वसन्ती थानगाची पुत्री पोन्नाम्माई थानगाची 2. मेचेलम्माल रानी पत्नी राजेन्द्रन 3. नागराजन पुत्र जेगनथान 4. जानकीराम पुत्र मुनीयान्दी 5. महाराजन पुत्र ईसाक्कीमुथु कोनार 6. ईसाक्कीयाम्माल पत्नी मुरुगेशन 7. पाउलदुराई पुत्र थिरुमाल 8. भागवतीयम्माल पत्नी मासानाराज 9. कृष्णन पुत्र ईनामुथु कोनादर
				18/6बी6	निजी	नम	30	शन्ति पत्नी कुमारवेल
				18/6बी8	निजी	नम	594	1. वसन्ती थानगाची पुत्री पोन्नाम्माई थानगाची 2. थिललाईनायागम पिल्ल पुत्र कोलाप्पान 3. विजयलक्ष्मी पुत्री थिल्ललाईनायागम पिल्लै

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								4. सेलवम पुत्ती अरुमुगम 5. पाउल दुराई पुत्र थिरुमाल 6. गनानासुन्दम पुत्र मान्नामपेरुमल
				18/8	निजी	नम	285	रथिनासामी पुत्र सास्थानकुट्टी
				18/11	निजी	नम	420	1. अरुमुगा वदीवाम्माल पुत्री माथुसोथानाम पेरुमल पिल्लै 2. भगवती पेरुमल पिल्लै पुत्र कालाप्या पिल्लै 3. माईनर सुब्रामणियन पुत्र नारायणन गडियन पिता के लिए 4. नारायणन पुत्र सुब्रामणिय पिल्लै 5. चोक्कालिगम पुत्र भगवती पेरुमल पिल्लै 6. अरुमुगम पुत्र कोलाप्पान
				18/12	निजी	नम	695	मुर्थि पुत्र महाराजन.
				18/13	निजी	नम	800	नागरु पिल्लै पुत्र मुथु कृष्णन पिल्लै
				18/14	निजी	नम	840	1. पार्वती पत्नी चोक्कालिगम पिल्लै 2. रघु पुत्र पालावेसम 3. शिवकामी असारी पुत्र सान्थानाम असारी 4. बालाकृष्णन पुत्र सोमु 5. कान्का पत्नी अयया पिल्लै 6. वसन्ताकुमारी पत्नी गनानासुन्दम
				18/15	निजी	नम	1635	1. वसन्ती थानगाची पुत्री पोन्नाम्माई थानगाची 2. पार्वती पत्नी चोक्कालिगम पिल्लै 3. सोरनाम पत्नी धानाम 4. सायीनाथन पुत्र यानजया नारायण अयार 5. अयाप्पान पुत्र सुब्रामणियन असारी 6. शिवकामी असारी पुत्र सान्थानाम असारी 7. वसन्थाकुमारी पत्नी गनानासुन्दम 8. गनानासुन्दम पुत्र मन्नामपेरुमल
				18/16	निजी	नम	300	1. असरामाम किरामाम वागाईगु वैकुन्दा रामायार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2. जौन पुत्र सोसाई 3. येसुमनी पुत्र पोन्नीह 4. वरामपेटटशाल पत्नी धर्माकान्नु 5. करुणईदास पुत्र पोन्नाइया 6. पेरुमल पिल्ले पत्र रामाचन्द्रन पिल्लै 7. योगीश्वरी पत्नी सुब्रामणिय पिल्लै 8. काथिजा नाची पुत्री मोहम्मद फातुमा 9. वरमपुटटशाल पत्नी धर्माकान 10. शान्ता पत्नी गणेशन 11. पार्वती पत्नी चोकोलिगम पिल्लै 12. सोरणम पत्नी धानाम 13. पोन्नीह पत्नी कुमारवेल अलीस गोमती 14. सालामोन पुत्र धर्माकान 15. राजाप्रभा पुत्री अयाप्पान ओर पत्नी अरुलराजा 16. गनानासुन्दम पुत्र मान्नाम पेरुमल
				24/1	निजी	नम	2340	खामीला पत्नी मोहम्मद अंसारी
				24/2	निजी	शुष्क	200	स्वामीनाथन पुत्र अरुमुगम अलीस अरुलानानाथम
				24/3	निजी	नम	690	1. सामीनाथन पुत्र अरुलनानाथम 2. गोबाकुमारन तामबी पुत्र चन्द्रशेखरन नाईर 3. धर्मानेशम पुत्री पाकीनाथन 4. रबीया पत्नी मीरान मोहिदीन
				24/6	निजी	शुष्क	20	1. अरुमुगा नाईनार पुत्र पांडाराम नादर 2. शेखर पुत्र चेल्लाप्पा
				24/8	निजी	नम	1600	भगवतीयाम्माल पुत्री पेरुमल पिल्लै
				24/9	निजी	शुष्क	250	भगवतीयाम्माल पुत्री पेरुमल पिल्लै
				24/11ए	निजी	नम	1200	खामीला पत्नी मोहम्मद अंसारी
				60/1	निजी	नम	1400	1. भगवतीयाम्माल पुत्री वेलाप्पान 2. सुब्रामणिय कोनार पुत्र फेलेप्पु कोनार
				60/3	निजी	नम	1450	1. प्रमेश्वरन पुत्र मारकामायार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2. सुब्रामणिय ईयर पुत्र मारकामायार 3. जीनाईथीन
				60/4	निजी	शुष्क	50	फातिमा नबीशा पुत्री जनेथीन
				60/6	निजी	नम	1125	1. प्रमेश्वरन पुत्र मारकामायार 2. सुब्रामणिय ईयर पुत्र मारकामायार 3. जीनाईथीन
				60/7	निजी	नम	700	पी सी शेखर पुत्र डी पी चेल्साप्पा
				60/9	निजी	नम	25	1. किट्टु पुत्री शंकर वादीवु 2. पार्वती अम्माई पुत्री किट्टु 3. प्रमारथलिंगम पुत्र नटराजन 4. लक्ष्मी पत्नी गणेशन 5. गणेशन पुत्र सुब्रामणियन 6. प्रेमलता पत्नी सीमहासालम
				60/10	निजी	नम	285	पेरूमल पिल्ले पत्नी कुट्टयलिंगम पिल्लै
				60/11	निजी	नम	15	भगवतीयाम्माल पुत्री रामाईया पिल्लै
				61/1	निजी	नम	1000	शिवकामी पिल्लै पुत्री ईसाक्कीम्माई
				61/2	निजी	नम	800	शेयगु अहम्मेद खबीर हाजीयार सान्थीथेरु, ईडालाकुडी
				61/4	निजी	नम	900	1. सामीनाथन पुत्र अरुलनानथाम 2. पाउलपाडियन नादर पुत्र पोन्नीया नादर 3. थांगम पुत्र मुथु कृष्णन 4. थांगा नादर पुत्र पोन्नीया नादर
				61/5	निजी	नम	1335	चिदमब्रम पुत्र कोपलान नादर
				61/6	निजी	नम	300	मेलसान्ती वागाईगु काप्पालार एस सुब्रुरामा ईयार
				74/1	निजी	नम	200	राजाम इलिस पारीपोरानाम पुत्री निलम्मा
				74/2	निजी	नम	980	1. पोन्नाम्माई 2. ईसाक्कीम्माई 3. अनान्थान कुट्टी 4. अयामपेरुमल 5. चोक्कालिंगम 6. अनानजापेरुमल 7. अमबालावानान 8. सुधालाईमुथु 9. पुन्नावानाम 10. ईसाक्की मदन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								11. कोलाप्पान
				76/8	निजी	शुष्क	75	1. थांगा नादाची पुत्र गनानावादीवु 2. वीराकुमार पुत्र सालोमन राज 3. थांकेश्वरन पुत्र सालोमानराज 4. राजागोपालन पुत्र वेलु नादर
				78/1	निजी	नम	1650	माईनर विष्णु पुत्र नीलामास्थानदान गर्डियन पिता नीलामास्थानदान पुत्र कोलाप्पान नादर
				78/2	निजी	नम	2380	माईनर विष्णु पुत्र नीलामास्थानदान गर्डियन नीलामास्थानदान
				78/3	निजी	नम	1050	अन्नाज्योति सरोज पत्नी नीलामास्थानदान
				78/4	निजी	नम	100	1. भगवती पुत्री थांगा लेक्ष्मी नादाची 2. थावासिपेरुमल पुत्र चिदमब्राम नादर 3. माईनर समीथ गर्डियन अंदरोस पुत्र थिरावियम नादर कुदानकुतलाम
				78/5	निजी	नम	1100	नीलामास्थानदान पुत्र कोलाप्पान नादर
				78/6ए	निजी	नम	1000	माईनर जीदीथ पुत्र नीलामास्थानदान गर्डियन नीलामास्थानदान
				78/6बी	निजी	नम	920	इन्द्रा पुत्री थिरावियम
				78/8बी	निजी	नम	130	1. पांडियाकुमार अलीस कुमार पुत्र अलासेयुस नवामनी 2. राजन पुत्र गनानासिंगामनी 3. विष्णु पुत्र निला मास्थानदान गर्डियन पिता 4. नीलामास्थानदान पुत्र कोलाप्पान
				78/9	निजी	नम	4700	इन्द्रा पुत्री थिरावियम नादर
				79/1	निजी	नम	50	1. स्टे थेरासा मेरिटक स्कूल निरवागा 2. थोमस फेरेरा पुत्र फेरेरा ट्रस्टी
				79/3	निजी	नम	2300	स्टे थेरासा मेरिटक स्कूल निरवागा ट्रस्टी फेरेरा पुत्र फेरेरा
				79/4	निजी	नम	70	1. सुबु पुत्र विरापुथिरान 2. पाउलसामी पुत्र मुथाम पेरुमल नादर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3. स्टे थेरासा मेरिटक स्कूल निरवागा ट्रस्टी फेरेश पुत्र फेरेश 4. विष्णु पुत्र निला मास्थानदान गर्डियन थिरावियम नादर पुत्र पोनराज
				79/11	निजी	शुष्क	35	1. मीनाथचियम्माल पुत्री भगवतीयम्माई 2. मुथु वैरावान पुत्र पारामान 3. थानगाम्माम नादाची पुत्री अंदी नादाची 4. स्टे थेरासा मेरिटक स्कूल निरवागा ट्रस्टी फेरेश पुत्र फेरेश
				83/2	निजी	शुष्क	400	थंगाम पत्नी पेरीयासामी नादर
				85/4	निजी	शुष्क	4715	1. परमेश्वरन पुत्र परमेश्वरन 2. निलाकान्दान पुत्र परमेश्वरन 3. अन्नाबाई पुत्री मेरीयम्माल 4. येसुदास पुत्र चिल्लीया नादर 5. पाउलदुराई पुत्र मुथिया नादर 6. पालावेसा मोप्पानार पुत्र चिदामब्राम थानु मोप्पानार 7. थंगा नादर पुत्र पोन्नीया नादर 8. जानोबर पुत्र उदुमान साहिबु 9. सेलवम पत्नी चिदमब्रम 10. सुब्रामणियन पुत्र नागराजन
				86/2	निजी	नम	1850	1. पदमावती पत्नी सुयामबु नादर 2. सोउन्द्रा राजन पुत्र मुथाप्पान 3. जाकब पुत्र सोसाई 4. विलसन पुत्र सोसाई 5. स्टीफन पुत्र सोसाई
				86/3	निजी	शुष्क	100	1. अहम्मेद पुत्र महीन अबुबाक्कार 2. पालावेसा मोप्पानार पुत्र चिदमबारा थानु मोप्पानार 3. विशवा लिगम असारी पुत्र चिन्नीयान असारी 4. जेरोम पुत्र एन्थोनी कुरुमु 5. साहाया रानी पत्नी जेरोम
				86/4	निजी	नम	1850	1. राजाम्माल पुत्री वनिशिराट्टी अम्माल 2. चिदमब्रम पुत्र शानमुगा चेट्टीयार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								3. रामाईया पुत्र शानमुगा चेटीयार 4. पालावेसा मोप्पानार पुत्र चिदमब्रम थानु मोप्पानार 5. विश्वा लिंगम असासी पुत्र चिन्नीयान 6. बानु पत्नी खजामाईदीन 7. जेरोम पुत्र एन्थोनी कुरुसु 8. सहायारानी पत्नी जेरोम
				86/5	निजी	नम	750	1. चिदमब्रम चेटीयार पुत्र शनमुगम चेटीयार 2. रामाईया चेटीयार पुत्र शानमुगम चेटीयार 3. पालावेसा मोप्पानार पुत्र चिदमब्रमथानु मोप्पानार 4. जेरोम पुत्र एन्थोनी कुरुसु 5. साहाया रानी पत्नी जेरोम
				87/1	निजी	नम	690	अन्ना पुष्पाम पत्नी एन्थोनीसामी
				92/1	निजी	नम	1270	नागेश्वरी पुत्री वसन्ता अलीस वाल्लीयम्माल और पत्नी कान्नान
				92/2	निजी	नम	1293	1. भगवतीयाप्पान पुत्र पित्ताकान्नु 2. महाराजन पुत्र शिवथानु पिल्लै
				92/3	निजी	नम	200	कुमारेशन पुत्र बालासुब्रामणियन
				92/5	निजी	नम	1500	मोहम्मद अब्दुल रासाक पुत्र कादर मोदीन
				92/6	निजी	नम	1550	1. मुथुलक्ष्मी पत्नी मारक्कामायार 2. सामीनाथन पुत्र अरुलानाथम
				92/7	निजी	नम	1525	चिदमब्रम पुत्री कोपलान नादर
				92/8	निजी	नम	2450	लता पुत्री अन्नाथानगाम और पत्नी सुन्दरेशन
				92/13	निजी	नम	15	शिवकुमार पुत्र मुथाम पेरुमल पिल्लै
				92/14	निजी	नम	1150	1. परमेश्वान पुत्र परमेश्वरन 2. निलाकान्दान पुत्र परमेश्वरन 3. सरस्वती अम्मा पत्नी मनी 4. निलावती पुत्री सरस्वतीयमाल 5. खजामाईदीन पुत्र भादुशाह
				93/1	निजी	नम	2470	गांधी पुत्र चेल्लीया
				93/4	निजी	नम	100	पाकीनाथन पुत्र अरुलानाथम
				93/5	निजी	नम	260	बानु खजामाईदीन पत्नी खजामाईदीन
				93/6	निजी	नम	1200	बानु खजामाईदीन पत्नी खजामाईदीन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				185/4	निजी	शुष्क	100	अंदीची पुत्र पाकीयम नादाची
				185/5	निजी	नम	600	ईन्द्रा पुत्री पुष्पम
				186/1	निजी	नम	15	1.सामानाथा पिल्लै पुत्र कैलाशनाथ पिल्लै 2. मादेश्वन पिल्लै पुत्र कैलाशनाथ पिल्लै 3. रामालक्ष्मी पत्नी वेलामुरुगान 4. पदमानाबन पुत्र अरुमुगा पेरुमल 5. जानकी पत्नी रामासामी 6. सुभा पत्नी मुरुगाप्पान 7. धीवाकारान पुत्र पेरुमल 8. राजागोपालन पुत्र वेलु नादर
				186/2ए1	निजी	नम	835	1.मानामलाई सोदी पुत्र पांडाराम 2.ईबासीगामनी पुत्र येसुदहास 3. थांगासामी पुत्र थानगामनी नादर 4. मुथुसेलवन पुत्र पेरुमल 5. राजागोपालन पुत्र वेल नादर 6.देवराज पुत्र येसुधासन 7. गणेशन पुत्र मुथिया
				186/2ए2	निजी	नम	20	चिदम्बरम पुत्र ऐना मुथु नादर
				186/2बी	निजी	नम	300	माईकल एन्थोनी पुत्र गनानाप्रकशम
				186/2सी	निजी	नम	250	1.महालिंगम पुत्र सान्थाना कुमारन नादर 2.थांगा नादाची पत्नी महालिंगम नादर 3. पाउलमती पत्नी पेरीयासामी 4.मुथु नादर पुत्र सुब्बाईया नादर
				186/2डी	निजी	नम	100	1.मानामलाई सोदी पुत्र पांडाराम 2.माईकल एन्थोनी पुत्र गनानाप्रकशम 3. महालिंगम नादर पुत्र शान्तानाकुमारन नादर 4.थांगा नादाची पत्नी महालिंगम नादर 5. मेरी पुष्पा रानी पत्नी बालाकृष्णन
				186/2ई	निजी	नम	500	मेरी पुष्पा रानी पत्नी बालाकृष्णन
				186/2एफ	निजी	नम	250	1.मानामलाई सोदी पुत्र पांडाराम 2.ईबासीगामनी पुत्र येसुदहास 3. थांगासामी पुत्र थानगामनी नादर 4. मुथुसेलवन पुत्र पेरुमल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								5. राजागोपालन पुत्र वेल नादर 6. देवराज पुत्र येसुधासन
				186/3एच	निजी	नम	15	पाउलसन पुत्र जेसेफ
				186/11	निजी	शुष्क	135	सुशीला पत्नी चेल्लादुशई
				186/12	निजी	नम	2000	1. थिरावियम नादर पुत्र सुब्बाईया नादर 3. पाकीयम पुत्र परदेशी
				186/13	निजी	शुष्क	100	पोन्नीया नादर पुत्र पालावेसामुथु उदीयार
				186/14	निजी	शुष्क	50	1. अरुल चन्द्रा पुत्री मेसीया दास 2. पाकीयम पुत्र परदेशी अलीस पाउल
				186/15	निजी	शुष्क	100	मनावेलाई ओर सुधालाईमादा स्वामी वागाईगु काप्पालार सुब्रामणिय नादर पुत्र पेरुमल नादर
				187/10	निजी	शुष्क	40	1. पालाम्माल पत्नी जोसेफ 2. सहाया राधिका पत्नी मरीया जोर्ज 3. परदीबा पुत्री जोसेफ पालाम्माल 4. मेरी कारोलिन ईनिथा पत्नी 5. रमेशकुमार पुत्र गांधी 6. चेललान पुत्र मनीकाम 7. ईन्बासेलवा पत्नी कानागाराज
				193/1ए1ए	निजी	शुष्क	4040	1. गोबीनाथ पुत्र राजाराज थामबीरान 2. प्रम्भाकरन पुत्र राजाराज थामबीरान 3. सोमाशेखरन पुत्र राजाराज थामबीरान 4. वाल्मीमा पुत्री राजाराज थामबीरान 5. पारुक्कुट्टी पुत्र राजाराज थामबीरान 6. सरोजीनियम्मा पुत्री राजाराज थामबीरान 7. हरीपुथिरान पुत्र मोहम्मद युसुपु 8. सालोमन पुत्र चेल्लीया 9. अंदीकान्नु पुत्र कान्नु कोनार 10. अप्पावु नादर पुत्र सुब्रामणिय नादर 11. पुष्पालीली पुत्री कुरुशीह 12. स्तोसाई पुत्र जेसुपिल्लै 13. मीनातची सुन्द्रम पुत्र महालिंगम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								14. पाउल नादर पुत्र पावारासी नादर 15. अप्पापु नादर पुत्र जयना नादर 16. पुष्पा म फली ना. गण्डियन 17. मुथुराज पुत्र थरीया नादर 18. जमालुदीन पुत्र जलमोद 19. ईलांगो पुत्र सनई 20. बालान पुत्र सनई 21. मानगाथार काला त ना. थावारीमुथु 22. येसुदास पुत्र गणनाथ 23. राजारैथिनाम पुत्र जयपु नादर 24. पाउलरासी पुत्र नृणामपेरुमल नादर 25. सोसाई पुत्र जेयन पिल्लै 26. सामुये पुत्र पोन्नोए नादर 27. माईनर जेयनलन जीवेता परीय पुत्री जेयन गडियन जयपुज 28. सुन्दरी पुत्री एन्थना मुथु
				193/1ए1बी	निजी	शुष्क	132	1. मुरुगान पिल्लै पुत्र जयामुथु पिल्लै
				193/1ए2	निजी	शुष्क	108	1. पुष्पा लीली पुत्री कुमरेशया 2. रीता यासमीनी कन्दोका फली विलसन 3. रीता अनसीलिन जयन पुत्री सोसाई पुष्पालीली
				193/1ए3	निजी	शुष्क	800	रीता अनसीलिन जयन पुत्री सोसाई पुष्पालीली
				193/1बी	निजी	शुष्क	50	मुथुराज पुत्र थरीया नादर
				193/1सी	निजी	शुष्क	50	जालालुदीन पुत्र जयमना मोसा

[फा. सं. भाराप्र-एचक्यू/11013/2011-एलए/नोटिफ/पीआर्यू रिम-नवम्बो]

एस. नरन्द. निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th February, 2011

S.O. 264(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 399 (E), dated the 17th February, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.47 on the stretch of land from Km 43/000 to Km 96/714 (Project Chainage) (Kerala-Tamil Nadu Border-Kanniyakumari Section) and National Highway No. 47B on the stretch of land from Km 0/000 to Km 16/376 (Project Chainage) (Nagercoil-Kavalkinaru Section) in District Kanniyakumari in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dina Thanthi” and “The New Indian Express”, both dated the 20th March, 2010, under sub-section (3) of section 3A of the said Act:

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority:

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government:

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose:

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land From Km 43/000 to Km 96/714 (Project Chainage) (Kerala / Tamil Nadu Border - Kanniyakumari section) of the National Highway No. 47 and from Km 0/000 to Km 16/376 (Project Chainage) (Nagercoil - Kavalkinaru Section) of the National Highway No. 47B in the State of Tamil Nadu

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square meters)	Name of the person Interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kanniyakumari	1. Thovalai	Tirupathisaram	81/1	Government	Poramboke	150	Government of Tamil Nadu
				84	Government	Poramboke	1850	Government of Tamil Nadu
				86/8	Government	Poramboke	150	Government of Tamil Nadu
				92/5	Government	Poramboke	300	Government of Tamil Nadu
				92/7	Government	Poramboke	500	Government of Tamil Nadu
				181/8	Government	Poramboke	16500	Government of Tamil Nadu
				360/4	Government	Poramboke	100	Government of Tamil Nadu
				361/6	Government	Poramboke	400	Government of Tamil Nadu
				363/1	Government	Poramboke	150	Government of Tamil Nadu
				363/7	Government	Poramboke	50	Government of Tamil Nadu
				364/3	Government	Poramboke	300	Government of Tamil Nadu
				365/2	Government	Poramboke	100	Government of Tamil Nadu
				365/3	Government	Poramboke	50	Government of Tamil Nadu
				373	Government	Poramboke	850	Government of Tamil Nadu
				375/7	Government	Poramboke	700	Government of Tamil Nadu
				376/6	Government	Poramboke	50	Government of Tamil Nadu
				384/3	Government	Poramboke	450	Government of Tamil Nadu
				389/1	Government	Poramboke	250	Government of Tamil Nadu
				390/6	Government	Poramboke	50	Government of Tamil Nadu
				392/29	Government	Poramboke	100	Government of Tamil Nadu
				393/2	Government	Poramboke	200	Government of Tamil Nadu
				394/1	Government	Poramboke	200	Government of Tamil Nadu
				394/3	Government	Poramboke	100	Government of Tamil Nadu
				79/7	Private	Wet	4500	Chidambarampillai S/o Nallasivan pillai (1) Gopalan Chettiar S/o Sivathanu Chettiar (2) Valliammal W/o Gopalan Chettiar(3) Ramaiah Nadar S/o Kochappan (4) Rosammal W/o Ramaiah Selvi D/o Gopalan Chettiar (6) Palaniyappan S/o Shunmugam (7) Pakthavatchalam S/o Balakrishnan (8) Govindan Namboothiri S/o Narayanan Namboothiri (9) Sakthikumari W/o Govindan Namboothiri 10) Sekar S/o Velayutham Asari (11) Narayanan Namboothiri S/o Krishnan Namboothiri 12) Asokkumar S/o Ramaiyan (13)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Kala W/o Premkumar (14) Manikandan S/o Jagatheesan 15) Alfred S/o Vargees 16) Dominic Babu S/o Gnanapragasam (17)
				79/8	Private	Wet	3300	Narayana Iyer S/o Subbaiah (1) Swaminathan S/o Narayana Iyer (2)
				79/9A	Private	Wet	1050	Narayana Iyer S/o Subbaiah (1) Swaminathan S/o Narayana Iyer (2)
				79/9B	Private	Wet	250	Anantha Subramania Iyer@ S.A.S. Mani S/o Subbaiah
				80/2	Private	Wet	350	Arunachalam S/o Palaniyandi Velar (1) Kolappan S/o Palaniyandi Velar (2) Kasangan S/o Kolappa Velar (3) Shenbagadevi W/o Sivakumar (4)
				81/3	Private	Wet	1900	Anantha Subramania Iyer S/o Subbaiah
				81/4	Private	Wet	650	S. Thanu Subramania Iyer For Thiruchendur Subramania Swami Vadiveeswaram Vel
				85/1	Private	Wet	2050	Gnanavadiyoo Ammal D/o Maalaiammai
				85/2	Private	Wet	300	Krishna Iyer S/o Sundara Iyer
				85/3	Private	Wet	250	Anantha Subramania Iyer S/o Subbaiah
				86/3B	Private	Wet	2100	Rengasamy S/o Ramasamy (1) Antony S/o Ponnaiah (2) Krishnan S/o Pavel (3)
				86/4	Private	Wet	100	Sabareesh S/o Bhojarajan (1) Harikesavan S/o Bhojarajan (2)
				86/5	Private	Wet	100	Mercy Amalin Sudha W/o Martin Brittosingh
				86/6	Private	Dry	100	Hariharpothi S/o Seshagiripothi 1) Ramasamy S/o Thiruvazhimarban (2)
				86/7	Private	Wet	1250	Munkalaperumal pillai Trustee Therekalputhur Muthramman
				92/2	Private	Wet	1400	Rajendran S/o Antonyappan
				92/3	Private	Wet	1400	Andy Chettiar, Trustee Kottar Nainar Desiga Vinayagar
				92/4	Private	Wet	2400	Chitra D/o Janaki
				92/6	Private	Wet	1900	Ayyapillai S/o Moses (1) Mahibans Jesulin Devi W/o Masi Navaroj (2) Rajendran S/o Antonyappan (3)
				92/8	Private	Wet	950	Chinnathambi Konar S/o Arumuga Konar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				92.9	Private	Wet	50	Selvaraja S/o Madaswami Asari (1) Kolav (1) Madaswami A. (1) (2) Satheesh S/o Madaswami A. (1) (3)
				92.10	Private	Dry	50	Andy Chettiar (1) (1) Kottar Naimu Doss Vinayagar
				93.89	Private	Wet	1800	Rajendran S/o Ananthappan
				166.1	Private	Wet	210	Mohammed Akbar S/o Mohideen P. (1) (1) Rawthar
				166.2	Private	Wet	320	Thirupathi Nanganimal
				166.3	Private	Wet	1800	Mallika W/o Murugesan
				166.4	Private	Wet	100	Athivaragava Iyer S/o Nambagar Kuduman
				360.2	Private	Wet	200	E.V.N.Sudarkodi P. (1) W/o S.Ravi (1) (1) (1) Edwin S/o Nayagar (2)
				360.3	Private	Wet	2650	E.V.N.Sudarkodi P. (1) W/o S.Ravi
				360.6	Private	Wet	3950	E.V.N.Sudarkodi P. (1) W/o S.Ravi (1) (1) (1) D/o Lazar (2) (1) (1) (1) Lazar Rain S/o Lazar (1) Ravimanian S/o Swammikann (1)
				360.7	Private	Dry	100	Sooriyakanthi D/o S. (1) (1) Nadachi
				360.8	Private	Wet	400	Sooriyakanthi D/o S. (1) (1) Nadachi
				360.9	Private	Wet	320	S.Ravi & Ravimanian S/o Swammikann
				361.5	Private	Wet	2500	Ilavar Petti Persu (1) (1) (1) W/o Raveenthirumati Chandran (2)
				361.7	Private	Wet	1100	Sarojintbai W/o Baskaradoss (1) Ravimanian S/o Swammikann (2)
				361.8	Private	Wet	1400	Ravimanian S/o Swammikann
				361.9	Private	Wet	2050	S. Ravi & Ravimanian S/o Swammikann
				362.5	Private	Wet	450	Prinsa S/o Lazar (1) (1) (1) S/o Swammikann (2)
				363.5	Private	Wet	1350	David S/o Manickam
				363.6	Private	Wet	1300	South India Thirusabai Kanniyakumari Athyachatheenam Nagerecoil
				363.9	Private	Wet	1050	Davidson S/o Manickam (1) Farmalin Selvakumari D/o Davidson (2)
				364.1	Private	Wet	6750	Gnanadoss S/o Manickam (1) Davidson S/o Manickam (2)
				364.2	Private	Wet	2400	Reghu S/o Swammikann

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				364/4	Private	Wet	7950	South India Thirusabai Kanniyakumari Athiyachatheenam, Nagercoil
				364/5	Private	Wet	6900	S.Ravi @ Ravimanian S/o Swammikann
				365/1A	Private	Wet	4600	Sundaram Pillai S/o Ramasamy Pillai
				365/1B	Private	Wet	2100	Nalayini @ Suja D/o Kumara Pillai
				365/4	Private	Wet	6300	E.V.N.Sudarkodi Ravi W/o S.Ravi
				365/5	Private	Wet	150	E.V.N.Sudarkodi Ravi W/o S.Ravi
				365/6	Private	Wet	2850	Parimazham D/o Gurusu Micheal, Rejinammal
				365/7	Private	Wet	3000	Krishna Prasad S/o Mudisoodum Perumal
				374/1A	Private	Wet	1600	Vijayakumari W/o Parameswaran Pillai (1) Arunachalavadivu Ammal W/o Rajappan(2) Perumal Pillai W/o Subramanian Nadar (3) Sarojini D/o Ponnammal (4) Ganapathy S/o Chinnaiyan (5) Narayana Perumal S/o Ramaiya Nadar (6) Jeyakumari D/o Jesurajaiyah (7) Mary Jasphin Isacc W/o Vijay (8) Sambath S/o Ganapathy (9) Sankar S/o Ganapathy (10) Somu S/o Ganapathy (11) Pandimadevi D/o Rajappa Pillai (12)
				375/1	Private	Wet	200	Jesudoss S/o Thomson
				375/2	Private	Wet	4400	Prinsa S/o Lazer (1) Reghu S/o Swammikann (2)
				375/3A	Private	Wet	300	Mary Jasphin Isacc W/o Vijay
				375/3B	Private	Wet	450	Kolappa Pillai S/o Veerabaghu Pillai (1) Lakshmana Pillai S/o Sivagurupandara Nadar (2) Athinarayanan S/o Thangaiah Nadar (3)
				375/4	Private	Wet	1500	Gnanadoss S/o Manickam
				375/5	Private	Wet	1750	Vedavartha Abharanam S/o Annamuthu
				375/6	Private	Wet	1750	Thangavel S/o Perumal Nadar
				376/4C	Private	Wet	650	Parameswariammal D/o Subramania Pillai (1) Swornam W/o Nataraja Pillai (2) Parameswaran Pillai S/o Subramania Pillai (3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				384/1	Private	Wet	500	E.V.N.Sudarkodi Ravi W/o S.Ravi
				384/2	Private	Wet	700	Sheik Mohammed S/o Shamsudeen
				384/4	Private	Dry	100	Annamuthu D/o Packkiyam
				384/5	Private	Wet	3050	Gnanadoss S/o Manickam
				384/6	Private	Wet	3500	Nadar S/o Alwar Nadar(1) Rajaiiah Nadar S/o Appavoo Nadar(2) Ahamed Meeran S/o Samsudeen (3) Sudarkodi Ravi W/o Ravi @ Ravimanian (4)
				384/7	Private	Wet	2100	Jebam D/o Arumugam Pillai
				385/1	Private	Wet	650	Nalini W/o Raveendranath Chandra (1). Petchi Pethal (minor) Guardian Nalini (mother) (2)
				385/2	Private	Wet	300	T.Duraisamy
				385/3	Private	Wet	100	Panchali @ Nattu Pillai D/o Ramalakshmi
				389/2A	Private	Wet	4400	Rajadurai S/o Perumal Nadar (1) Saraswathi D/o Ponnammal (2) Krishnakumari W/o Sukumaran (3) Thangaswamy S/o Essakkimuthu Nadar (4) Paul Thangam W/o Thangaswamy (5)
				389/2B	Private	Wet	700	Bhramanayagam S/o Viswanatha Pillai (1) Selvakumar S/o Viswanatha Pillai (2) Muthulakshmi W/o Shunmuganathan (3)
				390/7	Private	Wet	150	Manoharadoss S/o Manuvel (1) Bhagavathiammal W/o Paramarthalingam (2) Minor Krishnammal D/o Janarthanam Ammal (3) Ananja Perumal Pillai S/o Parathesia Pillai (4)
				392/16	Private	Dry	80	Soundra Bai W/o Moses Jeyapal
				392/17	Private	Dry	50	Chidambarathanu S/o Manickavasagam. Kanniyakumari Madam Vagai
				392/21	Private	Dry	50	Mennatchi Sundar S/o Muthu, Trustee for Maruthankulam Chery Vagai
				392/25	Private	Dry	50	Chidambarathanu S/o Manickavasagam. Kanniyakumari Madam Vagai
				392/26	Private	Dry	100	Samiadiyal D/o Marathy

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				392/27	Private	Dry	150	Soundra Bai W/o Moses Jeyapal
				392/28	Private	Dry	200	Mennatchi Sundaram S/o Muthu (1) Soundra Bai W/o Jeyapal (2)
				393/1	Private	Wet	5700	Natarajan S/o Arumuga perumal Moopanar(1) Jeyalakshmi S/o Arumuga perumal Moopanar (2) Prema @ Shunmugam S/o Arumuga perumal Moopanar (3) Indumathi S/o Arumuga perumal Moopanar (4) Mohanan S/o Arumugam Pillai (5)
				393/3	Private	Wet	1000	Malik Ahamed S/o Athambawa (1) Mohanan S/o Arumugam Pillai (2)
				394/2	Private	Wet	1600	Selvakumari D/o Thangappan (1) Thanukrishnan S/o Chidambarathanu Moopanar (2) Ulagammal D/o Parvathi (3)
				395/2	Private	Dry	150	Nalini W/o Raveendranath Chandra
				395/3	Private	Dry	1350	Prema @ Valliammal W/o Santhanakrishnan (1) Saravanan S/o Santhanakrishnan (2) Radhakrishnan S/o Santhanakrishnan (3)
				395/4	Private	Dry	350	Annamuthu S/o Packiam (1) Abarnam S/o Ponnammuthu (2) Manickam S/o Ponnammuthu (3) Stellan S/o Ponnammuthu (4) Chellam S/o Ponnammuthu (5) Raveenthranath S/o Arumainayagam (6) Sathasivam S/o Kumaravel Panickar (7) Ramachandran S/o Kumaravel Panickar (8)
				395/7	Private	Dry	400	Christudoss S/o Duraisamy
				395/8	Private	Dry	200	A.S.Antison (1) Petsipaul (2) Nalini W/o Raveendranath Chandra (3) Vedavathi Abarnam S/o Annamuthu (4) Gnanasoundaram Duraisamy S/o Annamuthu (5) Christudoss S/o Annamuthu (6) Selvam D/o Packiam (7) Varatharajan S/o Soundarapandian (8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				395/9	Private	Dry	6800	Prema @ Valliammal W/o Santhanakrishnan (1) Saravanan S/o Santhanakrishnan (2) Radhakrishnan S/o Santhanakrishnan (3)
		2. Agastees- waram	Eravi- puthoor	15/7	Government	Poramboke	100	Government of Tamil Nadu
				16/1	Government	Poramboke	40	Government of Tamil Nadu
				18/7	Government	Poramboke	500	Government of Tamil Nadu
				20	Government	Poramboke	1100	Government of Tamil Nadu
				21/1	Government	Poramboke	5	Government of Tamil Nadu
				24/7	Government	Poramboke	400	Government of Tamil Nadu
				24/10	Government	Poramboke	150	Government of Tamil Nadu
				60/5	Government	Poramboke	150	Government of Tamil Nadu
				61/3	Government	Poramboke	100	Government of Tamil Nadu
				74/3	Government	Unassessed waste	650	Government of Tamil Nadu
				78/7	Government	Poramboke	300	Government of Tamil Nadu
				79/2	Government	Poramboke	100	Government of Tamil Nadu
				80	Government	Unassessed waste	8800	Government of Tamil Nadu
				83/1	Government	Poramboke	400	Government of Tamil Nadu
				84	Government	Poramboke	400	Government of Tamil Nadu
				85/1	Government	Poramboke	1100	Government of Tamil Nadu
				86/6	Government	Poramboke	20	Government of Tamil Nadu
				92/9	Government	Poramboke	100	Government of Tamil Nadu
				92/10	Government	Poramboke	100	Government of Tamil Nadu
				92/11	Government	Poramboke	50	Government of Tamil Nadu
				93/2	Government	Poramboke	100	Government of Tamil Nadu
				185/1	Government	Poramboke	60	Government of Tamil Nadu
				186/4	Government	Poramboke	20	Government of Tamil Nadu
				187/1	Government	Poramboke	50	Government of Tamil Nadu
				190	Government	Poramboke	600	Government of Tamil Nadu
				15/1	Private	Dry	400	Azhagappan S/o. Ramalingam (1) Veerappan S/o.Sudalaiyandi Vaithiyar(2)
				15/2	Private	Wet	990	Azhagappan S/o. Ramalingam (1) Veerappan S/o.Sudalaiyandi Vaithiyar(2)
				15/3	Private	Wet	460	Sivathanu S/o. Kuttralingam Pillai(1) Vasanthi Thangachi D/o.Ponnamma Thangachi (2) Sorees D/o.Sesuvadian (3) Thanumalaya Perumal S/o. Madevan Pillai(4) Vallivel Chettiar S/o.Eswara- moorthy Chettiar(5) Muthukrishnan S/o. Velayutham Chettiar(6) Padmavathi W/o. Muthukrishnan 7) Sundar S/o.Bhagavathiappan(8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				15/4	Private	Wet	105	Kanagasababathi Pillai S/o. Bhagavathiperumal Pillai(1) Ponnamm D/o. Bhagavathiperumal Pillai(2)
				16/2	Private	Wet	4260	Nagaru Pillai S/o. Muthu Krishna Pillai
				16/3	Private	Wet	1455	Neelagapillai S/o. Munnoottru Nangai
				16/4	Private	Wet	40	Chidambaram Pillai S/o. Mathu Pillai (1) Bhagavathi perumal Pillai S/o. Ananjiperumal Pillai(2) Munnappa Pillai S/o. Bhagavathiperumal Pillai(3)
				17/1	Private	Wet	1050	Jeyabalan S/o. Subbiah Madathi(1) Usha D/o. Subbiah Madathi(2)
				18/1	Private	Wet	1100	Visalatchi D/o. Ramalekshmi Ammal
				18/2	Private	Wet	740	Kolammal D/o. Rajammal
				18/3	Private	Wet	300	Sivathanu S/o. Kuttralingam Pillai(1) Vasanthi Thangachi D/o. Ponnamm Thangachi (2) Sorees D/o. Sesuvadiyan (3) Thanumalaya Perumal S/o. Madevan Pillai (4) Vallivel Chettiar S/o. Eswara- moorthi Chettiar (5) Muthukrishnan S/o. Velayutham Chettiar(6) Padmavathi W/o. Muthu Krishnan(7) Sundar S/o. Bhagavathiappan(8) Deva Arulbai W/o. Selvaraj (9)
				18/4A	Private	Wet	1200	Vasanthi Thangachi D/o. Ponnammai Thangachi (1) Prabhakar S/o. Bhagavathi (2) Nagarajan S/o. Jeganathan (3) Janakiramu S/o. Muniyandi (4) Maharajan S/o. Esakkimuthu Konar(5) Devika W/o. Subramania Gurukkal(6) Nandhini D/o. Dhamodharan (7) Namesh S/o. Chidambaram Pillai(8) Nalini W/o. Dhamodharan (9) Kolappa Pillai S/o. Arumugam Pillai(10) Rengammal W/o. Joshi(11) Murugan S/o. Renganatha Pillai(12) Bala W/o. Sathish Kumar (13) Azhagappan S/o. Kittappan(14)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Maniammai W/o Azhagappan (15) Esakkiammal W/o Murugesan (16) D/o Arulbai W/o Selvaran (17)
				18/4B	Private	Wet	100	Namesh S/o Chidambaram Pillai
				18/5	Private	Wet	270	Vasanthi Thangachi D/o Ponnammma Thangachi (1) Michealammal Pawi W/o Rajendran (2) Nagarajan S/o Jeganathan (3) Janakirama S/o Muniyandi (4) Maharajan S/o Esakkimuthu Konar (5) Esakkiammal W/o Murugesan (6) Pauldurai S/o Thirumal (7) Bhagavathiammal W/o Masanaraj (8) Krishnan S/o Eenamuthu Konar (9)
				18/6B6	Private	Wet	30	Santhi W/o. Kumaravel
				18/6B8	Private	Wet	594	Vasanthi Thangachi D/o Ponnammma Thangachi (1) Thillainayagam Pillai S/o Kolappan (2) Vilayathkshmi D/o Thillainayagam Pillai (3) Selvam W/o Arumugam (4) Pauldurai S/o Thirumal (5) Gnanasundaram S/o
				18/8	Private	Wet	285	Rethinasamy S/o Sasthankutty
				18/11	Private	Wet	420	Arumuga Vadivammal D/o Mathusoothanam Perumal Pillai (1) Bhagavathi Perumal Pillai S/o Kotappa Pillai (2) For Minor Subramanian S/o Narayanan Gardjan Father (3) Narayanan S/o Subramania Pillai (4) Chokkalingam S/o Bhagavathiperumal Pillai (5) Arumugam S/o Kolappan (6)
				18/12	Private	Wet	695	Moorthi S/o Maharajan
				18/13	Private	Wet	800	Nagaru Pillai S/o Muthu Krishna Pillai
				18/14	Private	Wet	840	Parvathi W/o Chokkalingam Pillai (1) Reghu S/o Palavesam (2) Sivakumari Asari S/o Santhanam Asari (3) Balakrishnan S/o Somu (4) Kanaka W/o Ayya Pillai (5) Vasanthakumari W/o Gnanasundaram (6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				18/15	Private	Wet	1635	Santha W/o.Ganesan(1) Parvathi W/o.Chokkalingam Pillai(2) Sornam W/o. Dhanam(3) Sayinathan S/o.Yanjya Narayana Ayyar (4) Ayyappan S/o.Subramanian Asari(5) Sivakami Asari S/o. Santhanam Asari(6) Vasanthakumari W/o. Gnanasundaram(7) Gnanasundaram S/o. Mannamperumal (8)
				18/16	Private	Wet	300	Ashramam Kiramam Vagaigu Vaikunda Ramayyar(1) John S/o. Soosai(2) Yesumani S/o. Ponniah(3) Varampettral W/o. Dharmakannu(4) Karunaidhas S/o.Ponniah (5) Perumal Pillai S/o. Ramachandran Pillai (6) Yogeeswari W/o. Subramania Pillai (7) Khathija Nachi D/o. Mohammed Fathuma (8) Varampettral W/o. Dharmakan (9) Santha W/o. Ganesan(10) Parvathi W/oChokkalingam Pillai (11) Sornam W/o. Dhanam 12) Ponniah S/o. Kumaravel alias Gomathi (13) Salamon S/o. Dharmakan (14) Rajapraba D/o. Ayyappan and W/o. Arulraja15) Gnanasundram S/o. Mannam perumal(16)
				24/1	Private	Wet	2340	Khamila W/o. Mohammed Ansari
				24/2	Private	Dry	200	Swamynathan S/o. Arumugam alias Arulanantham
				24/3	Private	Wet	690	Saminathan S/o. Arulanantham (1) Gobakumaran Thambi S/o. Chandrasekaran Nair (2) Dharmanesam D/o.Packianathan (3) Rabeeha W/o. Meeran Mohaideen (4)
				24/6	Private	Dry	20	Arumuga Nainar S/o. Pandaram Nadar(1) Sekar S/o. Chellappa(2)
				24/8	Private	Wet	1600	Bhagavathiammal D/o. Perumal Pillai
				24/9	Private	Dry	250	Bhagavathiammal D/o. Perumal Pillai

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				24/11A	Private	Wet	1200	Khamila W/o. Mohammed Ansari
				60/1	Private	Wet	1400	Bhagavathi Ammal W/o. Velappan (1) Subramania Konar S/o. Philippu Konar(2)
				60/3	Private	Wet	1450	Parameswaran S/o. Markamayyar(1) Subramania Iyar S/o. Markamayyar(2) Jinaitheen(3)
				60/4	Private	Dry	50	Fathima Nabisha D/o. Jinaitheen
				60/6	Private	Wet	1125	Parameswaran S/o. Markamayyar(1) Subramania Iyar S/o. Markamayyar(2) Jinaitheen(3)
				60/7	Private	Wet	700	P.C.Sekar S/o.D.P. Chellappa
				60/9	Private	Wet	25	Kittu D/o.Sankara Vadivu (1) Parvathi Ammai D/o. Kittu (2) Paramarthalingam S/o. Natarajan(3) Lekshmi W/o. Ganesan(4) Ganesan S/o. Subramanian (5) Premalatha W/o. Simhasalam(6)
				60/10	Private	Wet	285	Perumal Pillai W/o. Kuttralingam Pillai
				60/11	Private	Wet	15	Bhagavathiammai W/o. Ramiah Pillai
				61/1	Private	Wet	1000	Sivakami Pillai D/o. Esakkiammai
				61/2	Private	Wet	800	Sheygu Ahammed Khabeer Hajiyar, Santhitheru. Edalakudi.
				61/4	Private	Wet	900	Saminathan S/o. Arulanantham (1) Paulpandian Nadar S.o. Ponniah Nadar(2) Thangam S/o.Muthu-krishnan (3) Thanga Nadar S/o.Ponniah Nadar(4)
				61/5	Private	Wet	1335	Chidambaram S/o.Koplan Nadar
				61/6	Private	Wet	300	Melsanthi Vagaigu Kappalar S. Subburama Iyar
				74/1	Private	Wet	200	Rajam alias Paripooranam D/o. Neelamma

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				74/2	Private	Wet	980	Ponnammai(1) Esakkiammai(2) Ananthan Kutty(3) Ayyamperumal(4) Chockalingam(5) Ananjaperumal(6) Ambalavanan(7) Sudalaimuthu(8) Punnavanam(9) Esakki Madan(10) Kolappan(11)
				76/8	Private	Dry	75	Thanga Nadachi D/o. Gnanavadiyu(1) Veerakumar S/o. Saloman Raj(2) Thankswaran S/o. Salomanraj(3) Rajagopalan S/o. Velu Nadar (4)
				78/1	Private	Wet	1650	For minor Vishnu S/o. Neelamarthandan Gardian father Neelamarthandan S/o. Kolappan Nadar
				78/2	Private	Wet	2380	For minor Vishnu S/o. Neelamarthandan Gardian Neelamarthandan
				78/3	Private	Wet	1050	Annajothi Saroja W/o. Neelamarthandan
				78/4	Private	Wet	100	Bhagavathi D/o. Thanga- lekshmi Nadachi(1) Thavasiperumal S/o. Chidambaram Nadar(2) For minor Smith Gardian Androos S/o. Thiraviam Nadar Kudankulam(3)
				78/5	Private	Wet	1100	Neelamarthandan S/o. Kolappan Nadar
				78/6A	Private	Wet	1000	For minor Jeedith S/o. Neelamarthandan Gardian Neelamarthandan
				78/6B	Private	Wet	920	Indra D/o. Thiraviam
				78/8B	Private	Wet	130	Pandiyakumar alias Kumar S/o. Alacius Navamani(1) Rajan S/o. Gnanasigamani (2) For Vishnu S/o. Neela- marthandan Gardian father(3) Neelamarthandan S/o. Kolappan(4)
				78/9	Private	Wet	4700	Indra D/o. Thiraviam Nadar
				79/1	Private	Wet	50	For St. Therasa Matric School Nirvaga (1) Thomas Ferera S/o. Ferera Trustee (2)
				79/3	Private	Wet	2300	For St. Therasa Matric School Nirvaga Trustee Thomas Ferera S/o. Ferera

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				79/4	Private	Wet	70	Subbu S/o.Veerarupthiran (1) Paulsamy S/o. Mutham Perumal Nadar (2) For St.Theresa Matric School Nirvaga Trustee Thomas Ferera S/o.Ferera (3) For Vishnu S/o.Neela- marthandan Gardian Thiraviam Nadar S/o.Ponraj (4)
				79/11	Private	Dry	35	Meenatchiammal D/o. Bhagavathiammai (1) Muthu Vairavan S/o. Paraman (2) Thangamma Nadachi D/o. Andi Nadachi (3) For St.Theresa Matric School Nirvaga Trustee Thomas Ferera S/o.Ferera (4)
				83/2	Private	Dry	400	Thangam W/o. Periyasamy Nadar
				85/4	Private	Dry	4715	Parameswaran S.o. Parameswaran (1) Neelakandan S/o.Parameswaran (2) Annabai D/o.Mariammal (3)Yesudhas S/o.Chelliah Nadar (4) Pauldurai S/o. Muthiah Nadar (5) Palavesa Mooppanar S/o. Chidambara Thanu Mooppanar (6) Thanga Nadar S.o.Ponniah Nadar (7) Janobar S/o.Uduman Sahibu (8) Selvam W/o. Chidambaram (9) Subramanian S/o.Nagarajan (10)
				86/2	Private	Wet	1850	Padmavathi W/o. Suyambu Nadar(1) Soundira Rajan S/o. Muthappan(2) Jacob S/o. Soosai(3) Wilson S/o. Soosai(4) Stephen S/o. Soosai(5)
				86/3	Private	Dry	100	Ahammed S/o. Mahin Abubakkar(1) Palavesa Mooppanar S/o. Chidambara Thanu Mooppanar(2) Vishva Lingam Asari S/o. Chinnian Asari(3) Jerom S/o.Anthony Kurusu(4) Sahaya Rani W/o. Jerom(5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				86/4	Private	Wet	1850	Rajammal D/o. Vanithiratti Ammal(1) Chidambaram S/o. Shanmuga Chettiar(2) Ramiah S/o. Shanmuga Chettiar (3) Palavesa Mooppanar S/o. Chidambara Thanu Mooppanar(4) Vishva Lingam Asari S/o. Chinnian (5) Banu W/o. Khajamaideen (6) Jerom S/o. Anthony Kurusu (7) Sahayarani W/o. Jerom(8)
				86/5	Private	Wet	750	Chidambaram Chettiar S/o. Shanmugam Chettiar(1) Ramiah Chettiar S/o. Shanmugam Chettiar(2) Palavesa Mooppanar S/o. Chidambarathanu Mooppanar(3) Jerom S/o. Anthony Kurusu(4) Sahaya Rani W/o. Jerom(5)
				87/1	Private	Wet	690	Anna Pushpam W/o. Anthonysamy
				92/1	Private	Wet	1270	Nageswari D/o. Vasantha alias Valliammal and W/o. Kannan
				92/2	Private	Wet	1293	Bhagavathiappan S/o. Pitchakannu (1) Maharajan S/o. Sivathanu Pillai (2)
				92/3	Private	Wet	200	Kumaresan S/o. Balasubramanian
				92/5	Private	Wet	1500	Mohammed Abdul Rasak S/o. Khadar Maideen
				92/6	Private	Wet	1550	Muthulekshmi W/o. Markkamayyar (1) Saminathan S/o. Arulanantham (2)
				92/7	Private	Wet	1525	Chidambaram D/o. Koplan Nadar
				92/8	Private	Wet	2450	Latha D/o. Annathangam and W/o. Sundaresan
				92/13	Private	Wet	15	Sivakumar S/o. Mutham Perumal Pillai
				92/14	Private	Wet	1150	Parameswaran S/o. Parameswaran (1) Neelakandan S/o. Parameswaran (2) Saraswathi Amma W/o. Mani (3) Neelavathi D/o. Saraswathiammal (4) Khajamaideen S/o. Bhadusha (5)
				93/1	Private	Wet	2470	Gandhi S/o. Chelliah
				93/4	Private	Wet	100	Packianathan S/o. Arulanantham
				93/5	Private	Wet	260	Banu Khajamaideen W/o. Khajamaideen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				93/6	Private	Wet	1200	Banu Khajamaideen W/o. Khajamaideen
				185/4	Private	Dry	100	Andichi D/o. Packiam Nadachi
				185/5	Private	Wet	600	Indra D/o. Pushpam
				186/1	Private	Wet	15	Ramanatha Pillai S/o. Kailasanatha Pillai(1) Madevan Pillai S/o. Kailasanatha Pillai(2) Ramalekshmi W/o. Velmurugan(3) Padmanaban S/o. Arumuga Perumal(4) Janaki W/o. Ramasamy (5) Subha W/o Murugappan(6) Dhivakaran S/o Perumal(7) Rajagopalan S/o. Velu Nadar(8)
				186/2A1	Private	Wet	835	Manamalai Soodi S/o. Pandaram(1) Inbasigamani S/o. Yesudhas (2) Thangasamy S/o. Thangamani Nadar (3) Muthuselvan S/o Perumal (4) Rajagopalan S/o. Vel Nadar (5) Devaraj S/o. Yesudhasan (6) Ganesh S/o. Muthiah(7)
				186/2A2	Private	Wet	20	Chidambaram S/o. Eena Muthu Nadar
				186/2B	Private	Wet	300	Michael Anthony S/o. Gnanaprakasam
				186/2C	Private	Wet	250	Mahalingam S/o. Santhana Kumaran Nadar(1) Thanga Nadachi W/o. Mahalingam Nadar(2) Paulmatni W/o. Periaswamy (3) Muthu Nadar S/o. Subbiah Nadar(4)
				186/2D	Private	Wet	100	Manamalai Soodi S/o. Pandaram (1) Michael Anthony S/o. Gnana- prakasam(2) Mahalingam Nadar S/o. Santhanakumaran Nadar(3) Thanga Nadachi W/o. Mahalingam Nadar (4) Mabi Pushpa Rani W/o. Balakrishnan(5)
				186/2E	Private	Wet	500	Mari Pushpa Rani W/o. Balakrishnan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				186/2F	Private	Wet	250	Manamalai Soodi S/o. Pandaram(1) Inbasigamani S/o. Yesudhas(2) Thangasamy S/o. Thangamani Nadar(3) Muthuselvan S/o. Perumal(4) Rajagopalan S/o. Vel Nadar(5) Devaraj S/o. Yesudhasan(6)
				186/3H	Private	Wet	15	Paulson S/o. Jeseeph
				186/11	Private	Dry	135	Suseela W/o. Chelladurai
				186/12	Private	Wet	2000	Thiraviam Nadar S/o. Subbiah Nadar(1) Packiam S/o. Paradesi(2)
				186/13	Private	Dry	100	Ponniah Nadar S/o. Palavesamuthu Udayar
				186/14	Private	Dry	50	Arul Chandra D/o. Mesiya Dhas (1) Packiam S/o. Paradesi alias Pavul(2)
				186/15	Private	Dry	100	Manavilai Oor Sudalaimada Swamy Vagaigu Kappalar Subramania Nadar S/o. Perumal Nadar
				187/10	Private	Dry	40	Palammal W/o. Joseph (1) Sahaya Radhika W/o. Maria George(2) Pradiba D/o. Joseph Palammal (3) Mary Karolin Enitha W/o. Sahaya Winsius(4) Rameshkumar S/o. Gandhi(5) Chellem S/o. Manickam(6) Inbaselva W/o. Kanagaraj (7)
				193/1A1A	Private	Dry	4040	Gobinath S/o. Rajaraja Thambiran(1) Prabakaran S/o. Rajaraja Thambiran(2) Somasekaran S/o. Rajaraja Thambiran(3) Valiamma D/o. Rajaraja Thambiran(4) Parukkutty S/o. Rajaraja Thambiran(5) Sarojiniamma D/o. Rajaraja Thambiran(6) Hariputhiran S/o. Mohammed Yusuf (7) Saloman S/o. Chelliah (8) Andikannu S/o. Kannu Konar(9) Appavu Nadar S/o. Subramania Nadar(10) Pushpaleeli D/o. Kurusiah (11) Soosai S/o. Jesupillai (12) Meenatchi Sundaram S/o. Mahalingam (13) Paul Nadar S/o. Madasamy Nadar(14)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Appavu Nadar S/o. Ayyappa Nadar(15) Pushpam W/o. Paulpandian (16) Muthuraj S/o.Thangiah Nadar (17) Jamaludeen S/o. Ahammed (18)
								Elango S/o. Soosai(19) Valan S/o.Soosai (20) Mangayar-karasi W/o. Thavasimuthu 21)Yesudhas S/o.Ponniah (22) Rajarethinam S/o.Ayyavu Nadar (23) Paulswamy S/o. Muthamperumal Nadar24) Soosai S/o.Jesu Pillai (25) Samuel S/o.Ponniah Nadar (26) Kavimai S/o.Appavoo Nadar Packiam (27) For Minor Jeyalin Anitha Pricy D/o. Jeyan Gardian Jeyaraj (28) Sundari D/o. Anthony Muthu(29)
				193/1A1B	Private	Dry	132	Murugan Pillai S/o. Nagamuthu Pillai
				193/1A2	Private	Dry	108	Pushpa Leeli D/o. Kurusiah (1) Reeta Yasmini Chandrika W/o.Wilson (2) Reeta Anselin Sheeba D/o. Soosai-Pushpaleeli (3)
				193/1A3	Private	Dry	800	Reeta Anselin Sheeba D/o. Soosai-Pushpaleeli(3)
				193/1B	Private	Dry	50	Muthuraj S/o.Thangiah Nadar
				193/1C	Private	Dry	50	Jalaludheen S/o. Ahammed Moosa

[F.No. NHAI-HQ/11013/2011-LA/Notif/PIU-Tirune/veli]

S. NARENDRA, Director